

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड वैक्सीन लगवाकर सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु किया गया प्रोत्साहित ।

कोविड-19 से बचाव हेतु जनपद में पुलिसकर्मियों को कोविड वैक्सीन टीकाकरण की कार्यवाही पूरे जनपद में प्रचलित है । इसी क्रम में आज दिनांक 22.02.2021 को पुलिस लाइन परिसर में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा कोविड का टीका लगवाया गया एवं सभी लोगों व पुलिसकर्मियों को भी कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु प्रोत्साहित किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी लोगों से अपील भी की गई कि आमजन में वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार का भय अथवा भ्रम न रहे । निर्भीक होकर वैक्सीन लगवाएं एवं सभी लोगों को भी प्रेरित करें ।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 22-02-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 248 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 128 वाहनों का चालान कर ₹ 1,27,700/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.02.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. सूर्य प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया टीम द्वारा 01 अभियुक्त को ग्राम चरिगवां के पास से 20 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 033/21 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामप्रकाश पुत्र चिनकू साकिन गोलहौरा मुस्तहकम थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

20 शीशी अवैध नेपाली शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ.नि. सूर्य प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

का. संदीप यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

का. राजू यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम को कल दिनांक 21.02.2021 को पैदल गश्त के दौरान जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति देशी अवैध तमन्चा लिए हुए उसका बाजार रोड पर हाईड्रिल तिराहा की ओर आ रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो अभियुक्त मय अवैध शस्त्र के गिरफ्तार हो सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्समय मय मुखबीर के हाईड्रिल तिराहा के पास पहुँच कर उक्त व्यक्ति का इन्तजार करनी लगी कि थोड़ी देर में आ रहे व्यक्ति की ओर मुखबीर ईशारा करके हट बढ गया। उक्त व्यक्ति को नियमानुसार रोककर नाम, पता, पूछा गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र पासवान पुत्र शोहरत प्रसाद सा0 बगही जोगी टोला थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर व जामातलाशी ली गयी तो एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी / गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त धर्मेन्द्र पासवान उपरोक्त को माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

बरामदगी का विवरण

एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

1. धर्मेन्द्र पासवान पुत्र शोहरत प्रसाद सा0 बगही जोगी टोला थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर

---गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण---

1-उ0नि0 श्री अजय सिंह थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

2- उ0नि0 श्री चन्दन कुमार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

3- हे0का0 फैज खान थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

[#siddharthnagpol](#) [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@dmsid1](#) [@Cdosid](#)